

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज- दिनांक सितम्बर 09, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 113 वाहनों का चालान व बिना मास्क के 2 व्यक्तियों से 2000/- का सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा 05 व्यक्तियों का 107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय चालान कर भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

***पैदल गश्त अभियान*-** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

***थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त शिवचरन पुत्र सूर्यमन नि0 बेलनरिया थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 106/21 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त जयहिन्द राजभर पुत्र रामप्रीत नि० अहिरौली थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 213/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त राधेश्याम पुत्र विन्देश्वरी नि० कपरी थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर देशी शराब बरामद कर मु०अ०सं० 181/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** 1. अभियुक्त राजू कहार पुत्र परमेश्वर नि० बरगाहपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 208/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे,
2. अभियुक्त सोनू पुत्र हाकिम नि० शिवपुर अदरौना थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 लीटर देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 209/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग

3. अभियुक्ता गुड्डी पत्नी हाकिम नि० शिवपुर अदरौना थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 लीटर देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 210/21 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-08 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 08/09-09-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 20 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।